



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 547]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 13, 2007/अग्रहायण 22, 1929

No. 547]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 13, 2007/AGRAHAYANA 22, 1929

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 दिसम्बर, 2007

सा.का.नि. 767(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और समन्वय निदेशालय (पुलिस बेतार) समूह “क” और समूह “ख” पद भर्ती नियम, 1966, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार में निदेशक, पुलिस दूर संचार के पद की भर्ती के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार में निदेशक, भर्ती नियम, 2007 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.—उक्त पद/पदों की संख्या, उसका/उनका वर्गीकरण और उसका/उनके वेतनमान वह होगा/वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे हों जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है से विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीकार विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के परिवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के संबंध में, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिसका केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए उपलब्ध करना अपेक्षित है।

### अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा गैर चयन पद	क्या केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 30 के अंतर्गत जोड़े गए वर्षों का लाभ अनुज्ञेय है	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6	7
निदेशक	1* (2007) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' 500- राजपत्रित, अननुसचिवीय	रु. 18400- 22400	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
सीधी भर्ती के व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं						
		क्या सीधी भर्ती वालों के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नति वाले अधिकारियों के मामले में भी लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा, या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत		
8	9	10	11			
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा			
यदि भर्ती पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा की गई है तो इस ग्रेड का उल्लेख करें जिसमें पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है		यदि विभागीय पदोन्नति समिति है, तो उसका गठन क्या है		वह परिस्थितियां जिनमें भर्ती करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग की सलाह ली जानी है।		
12	13	14				
प्रोन्नति : अपर निदेशक जिन्होंने 14300-18300 रु. वेतनमान की उस श्रेणी में 3 वर्ष की नियमित सेवा की है। टिप्पणी :-जहाँ पर कनिष्ठ अधिकारियों ने पात्रता के अनुसार या अर्हक सेवा पूरी कर ली हो, उनकी प्रोन्नति पर विचार किया जाएगा, तथा उनके ज्येष्ठ अधिकारियों की भी प्रोन्नति पर विचार किया जाएगा यदि उनकी अपेक्षित पात्रता या अर्हक सेवा पात्रता की प्राप्ति अर्हक सेवा से कम न हो या अर्हक सेवा 2 वर्ष, जो भी कम हो, को सफलतापूर्वक परीवीक्षा की अवधि अगले पद की प्रोन्नति के लिए अपन कनिष्ठ अधिकारियों के साथ जिन्होंने पात्रता या अर्हक सेवा पहले से ही पूरी कर ली हो, पर विचार किया जाएगा।		समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) 1. अध्यक्ष/सदस्य संघ लोक सेवा —अध्यक्ष आयोग 2. विशेष सचिव, गृह मंत्रालय —सदस्य 3. अपर सचिव, गृह मंत्रालय —सदस्य		किसी अधिकारी की प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।		

**प्रतिनियुक्ति :**

1. केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/संघ शासित प्रदेश के ऐसे अधिकारी जो :

(क)(i) मूल कॉडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ हो; या

(ii) मूल कॉडर या विभाग में 16400-20000 रु. या समतुल्य के वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में 2 वर्ष सेवा की हो; या

(iii) मूल कॉडर या विभाग में 14300-18300 रु. या समतुल्य के वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में 3 वर्ष सेवा की हो; और

(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं :-

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से-

इंजीनियरी स्नातक या इलेक्ट्रॉनिक्स या दूरसंचार या कंप्यूटर या सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातक या भौतिकी या कंप्यूटर अनुप्रयोग में स्नातकोत्तर की उपाधि या समतुल्य तथा रेडियो संचार, कंप्यूटर संचार या उपग्रह संचार में 15 वर्ष का अनुभव; या

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से इंजीनियरी में स्नातकोत्तर या इलेक्ट्रॉनिक्स या दूरसंचार या कंप्यूटर या संचार प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर या समतुल्य तथा रेडियो संचार, कंप्यूटर संचार या उपग्रह संचार में 13 वर्ष का अनुभव

(फ्रीडर वर्ग के विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी लाइन में हैं वे प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु विचार करने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति पर व्यक्ति भी प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु विचार के पात्र नहीं होंगे।)

(प्रतिनियुक्ति की अवधि, इसी या अन्य केन्द्र सरकार के संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से तत्काल पूर्व दूसरे संवर्ग बाह्य पद पर धारित प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित सामान्यतः तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि को 56 वर्षों से अधिक नहीं होगी।)

[सं. ए-11016/1/निदेशक/2008-प्रशा. II/पी.एम. II]

रमन मेहरा, अवर सचिव

**MINISTRY OF HOME AFFAIRS**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 12th December, 2007

**G.S.R. 767(E).**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Directorate of Co-ordination (Police Wireless) Recruitment to Group 'A' and Group 'B' Posts Rules,

1966, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules relating to recruitment to the post of Director, Police Telecommunications in the Directorate of Co-ordination Police Wireless, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These Rules may be called the Directorate of Co-ordination Police Wireless (Director) Recruitment Rules, 2007.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and scale of pay.**—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit and other qualifications etc.**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

4. **Disqualification.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment of the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this Rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, other Backward classes, Ex-Serviceman and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

#### SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Scale of pay	Whether selection or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972
1	2	3	4	5	6
Director	01* (2007) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 18400-500-22400.	Selection	Not applicable
Age limit for direct recruits	Educational and other qualification required for direct recruits		Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees		Period of probation, if any
7	8		9		10
Not applicable	Not applicable		Not applicable		Not applicable

**Method of recruitment :** Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods

In case of recruitment by promotion/deputation/absorption grades from which promotion/deputation/absorption to be made

11

12

Promotion failing which by deputation.

**Promotion :**

Additional Director in the scale of Rs. 14300-18300 with three years' regular service in the grade.

**Note :** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

**Deputation :**

Officers under the Central or State Governments or Union Territories :

(a) (i) Holding analogous posts on regular basis in the parent Cadre or Department; or

(ii) with two years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the scale of pay of Rs. 16400-20000 or equivalent in the parent Cadre or Department; or

(iii) with three years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in the scale of pay of Rs. 14300-18300 or equivalent in the parent Cadre or Department; and

(b) possessing the following educational qualifications and experience; Bachelor's degree in Engineering or Bachelor's degree in Technology in Electronics or Telecommunications or Computer or Information Technology or Master's Degree in Physics or Computer Applications from a recognised University or equivalent with fifteen years' experience in Radio Communication, Computer Communication or Satellite Communication; or

Master's degree in Engineering or Master's degree in Technology in Electronics or Telecommunication or Computer or Information Technology from a recognised University or equivalent with thirteen years' experience in Radio Communication, Computer Communication or Satellite Communication.

(The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation/shall not be exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists,  
what is its composition

Circumstances in which Union Public  
Service Commission to be consulted  
in making recruitment

13

14

**Group 'A' Departmental Promotion Committee**

(For considering promotion) :

- |   |           |
|---|-----------|
| 1. Chairman/Member of Union Public Service Commission | —Chairman |
| 2. Special Secretary, Ministry of Home Affairs        | —Member   |
| 3. Additional Secretary, Ministry of Home Affairs     | —Member   |

Consultation with the Union Public  
Service Commission necessary while  
appointing an Officer on deputation.

[F. No. A-11016/1(Director)/2007-Ad. II/PM-II]

RAMAN MEHRA, Under Secy.